

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

“साइबर क्राइम इनवेस्टीगेशन प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर”

Date 14-02-2022 to 18-02-2022, Course No. 07, Under CCPWC Project

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत “साइबर क्राइम इनवेस्टीगेशन प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर” विषय पर दिनांक 14-02-2022 से 18-02-2022 तक 5 दिवसीय कोर्स आयोजित किया गया।

मुझ कोर्स निदेशक संदीप सारस्वत, उप अधीक्षक पुलिस, आरपीए, जयपुर तथा सहायक कोर्स निदेशक श्री यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा कोर्स का सफल आयोजन करवाया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 19 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 2 पुलिस निरीक्षक तथा 17 उप-निरीक्षक रैंक के अधिकारी शामिल हुए।



इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री भुपेन्द्र यादव, सहायक निदेशक (प्रशासन), राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया गया। श्रीमान् द्वारा उदबोधन में साइबर क्राइम के बढ़ते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रतिभागियों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही ऑनलाईन प्री कोर्स मूल्यांकन परीक्षा ली गयी।

प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का आरंभ मुझ कोर्स निदेशक द्वारा किया गया जिसमें Overview of Cybercrimes के बारे में बताया गया। इसी दिन श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फॉरेन्सिक कन्सल्टेंट, आरपीए द्वारा Social Media Investigation, Important ITC terminologies and techniques की जानकारी साझा की गयी साथ ही Social Media Investigation Case Study and Cyber Crime Against Women & Child के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। बाद दोपहर श्री विश्वास भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर, एफएसएल द्वारा Scene of Crime Management: Inspection, Documentation, Securing SOC के संबंध में जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण के द्वितीय दिन प्रथम सत्र में श्री विश्वास भारद्वाज, असिस्टेंट डायरेक्टर, एफएसएल द्वारा ही Scene of Crime Management: Search, Seizure & Documentation पर विस्तृत जानकारी दी गयी। इसी दिन बाद दोपहर श्री यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा Information Gathering (Case Study/Scenario Analysis) के संबंध में जानकारी साझा की गयी।

तृतीय दिवस प्रथम सत्र की शुरुआत श्री रितेश शर्मा, एक्सिस बैंक द्वारा Financial Frauds विषय पर अध्यापन करवाया गया तथा बाद दोपहर द्वितीय सत्र में श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फॉरेन्सिक कन्सल्टेंट, आरपीए द्वारा Communication Device (Mobile Phone, Satellite Phone, GPS Device Etc.) Based Investigation Concept of GPRS Logs & its use in

investigation (use of chat programmes like we-chat, viber, whatsapp, skype) & VOIP etc. विषय पर जानकारी दी गयी। इसी दिन बाद दोपहर भी श्री मनोज रमन, जूनियर साइबर फोरेन्सिक कन्सल्टेंट, आरपीए द्वारा क्राइम सीन मैनेजमेंट विषय पर जानकारी दी गयी।

प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र की शुरुआत श्री मुकेश चौधरी, चिफ साइबर क्राइम कन्सल्टेंट द्वारा की गयी, जिनके द्वारा IP, Website & E-mail Investigation विषय पर जानकारी साझा की गयी। तत्पश्चात श्री महेन्द्र, पुलिस निरीक्षक सी. आई.डी. सी.बी., द्वारा Communication Device (Mobile Phone, Satellite Phone, GPS Device Etc.) Based Investigation, Mobile Interception & authorization, How to seek information from mobile service providers ,Legal provision of interception in India telegraph act with recent guidelines इत्यादी के माध्यम से सूचना संकलन व Communication Device (Mobile Phone, Satellite Phone, GPS Device Etc.) Case Study and CDR/ IPDR analysis and its use in investigation with hands-on & VOIP investigation विषय पर जानकारी दी गयी। अंतिम सत्र में श्री प्रमेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, जयपुर आयुक्तालय द्वारा Investigation Abroad के बारे में जानकारी साझा की गयी।

अंतिम दिवस प्रथम सत्र श्री मनोज मीणा, सिनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय , जयपुर द्वारा Cyber Laws विषय की जानकारी के साथ साथ Investigation Challenges विषय पर जानकारी दी गयी। श्री यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा सिमूलेशन एक्सरसाइज करवाई गई। बाद दोपहर समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाकर प्रशिक्षणोपरान्त सभी की पोस्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा भी ली गयी। सम्पूर्ण कोर्स में प्रतिभागियों को Hands on exercise भी करवाई गई। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त एक पेन ड्राइव में प्रशिक्षण के दौरान पढाया गया तथा एमएचए द्वारा उपलब्ध करवाया गया प्रशिक्षण अध्ययन सामग्री प्रतिभागियों को उपलब्ध करवायी गयी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 18-02-2022 को 04.45 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन-समारोह अकादमी स्थित, सीसीपीडब्ल्यूसी लैब में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री राजीव शर्मा, निदेशक, आरपीए द्वारा समापन उद्बोधन दिया जाकर प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में मुझ कोर्स निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि व कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

भवदीय,

(संदीप सारस्वत)
उप अधीक्षक पुलिस एवं
कोर्स निदेशक, (CCPWC)
आर.पी.ए. जयपुर